

## प्रेसनोट/सराहनीय कार्य दिनांक 03.02.2023 जनपद सिद्धार्थनगर

थाना उसका बाजार व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा जनपद के थाना उसका बाजार व थाना चिल्हिया में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के आभूषण, पम्पिंग सेट व ₹ 6,850/- नकद बरामद ।

जनपद के थाना उसका बाजार व चिल्हिया क्षेत्रान्तर्गत हुई चोरी की घटनाओं में पंजीकृत मु0अ0सं0 13/2023 धारा 379 IPC व मु0अ0सं0 17/2023 धारा 457/380 IPC थाना उसका बाजार व मु0सं0सं0 174/2022 धारा 457/380 IPC थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर के सफल अनावरण हेतु अमित कुमार आनन्द पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया था, गठित टीम द्वारा “अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में, अखिलेश वर्मा क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में थाना उसका बाजार पुलिस व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा दिनांक 02-02-2023 को प्राप्त सूचना के आधार पर बृजमनगंज-उसका राजा मार्ग पर एम0के0 ढाबा के पास से समय 20:20 बजे 03 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी के आभूषण, पम्पिंग सेट, मोबाइल व नकद आदि बरामद किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है ।

### **पुलिस टीम की पूछ-ताछ का विवरण-**

पुलिस टीम की पूछ-ताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया वे अपने साथियों के साथ मिलकर रेकीकर, बन्द घरों व दुकानों का ताला तोड़कर चोरी करते हैं । चोरी करने के बाद हमलोग जिला छोड़ देते हैं व गोरखपुर चले जाते हैं, वहां मौजमस्ती करते हैं और चोरी की घटनाओं को कारित करते रहते हैं । जिससे हम लोगों की रोजी-रोटी चलती है ।

### **बरामदगी का विवरण-**

- 1-एक अदद मंगलसूत्र (पीली धातु)
- 2-दो अदद झाला (पीली धातु)
- 3-दो अदद नथिया (पीली धातु)
- 4-एक अदद अंगूठी (पीली धातु)
- 5-चार अदद बिछुआ (सफेद धातु)
- 6-दो अदद पायल (सफेद धातु)
- 7-एक अदद हाथ प्लाई (सफेद धातु)
- 8-दो अदद मोबाइल
- 9-एक अदद पम्पसेट
- 10- ₹6850/- रुपये नकद ।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. सिराजुद्दीन उर्फ बबलू पुत्र ओवैदुर रहमान निवासी बर्डपुर नं0 09 टोला गोसाईगंज थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।
2. रिकू उर्फ छोटले पुत्र छेदीलाल निवासी महनी महला थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।

### 3. रामनयन पुत्र गरीब निवासी खजुरिया थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।

#### सिराजुद्दीन उर्फ बबलू का आपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.सं. 168/2018 धारा 294 भा.द.वि. थाना देबरुआ ।
2. मु.अ.सं. 65/2018 धारा 379/411 भा.द.वि. थाना पथरा बाजार ।
3. मु.अ.सं. 382/2018 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बांसी ।
4. मु.अ.सं. 48/2019 धारा 401 भा.द.वि. व 22 स्वापक औषधि मनःप्रभावी पदार्थ अधि. थाना मोहाना ।
5. मु.अ.सं. 57/2019 धारा 379 भा.द.वि. थाना मोहाना ।
6. मु.अ.सं. 70/2022 धारा 380/411 भा.द.वि. थाना मोहाना ।
7. मु.अ.सं. 71/2022 धारा 21/8 स्वापक औषधि मनःप्रभावी अधि. थाना मोहाना ।
8. मु.अ.सं. 72/2022 धारा 10/3 उ0प्र0 गुण्डागर्दी नियंत्रण अधि0 थाना मोहाना ।
9. मु.अ.सं. 76/2022 धारा 379/411/413/419/420 भा.द.वि. थाना मोहाना ।
10. मु.अ.सं. 77/2022 धारा 25 आयुध अधि0 थाना मोहाना ।
11. मु.अ.सं. 182/2018 धारा 379 भा.द.वि. थाना मोहाना ।
12. मु.अ.सं. 188/2022 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना मोहाना ।
13. मु.अ.सं. 271/2020 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना मोहाना ।
14. मु.अ.सं. 272/2020 धारा 21/8 स्वापक औषधि मनःप्रभावी अधि. थाना मोहाना ।
15. मु.अ.सं. 2012/2017 धारा 380/411 भा.द.वि. थाना मोहाना ।

#### रामनयन का आपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.सं. 59/2018 धारा 380/457 भा.द.वि. थाना गोलहौरा ।
2. मु.अ.सं. 111/2018 धारा 379 भा.द.वि. थाना मोहाना ।
3. मु.अ.सं. 00/2016 धारा 41/411 भा.द.वि. थाना सिद्धार्थनगर ।
4. मु.अ.सं. 142/2018 धारा 380/457 भा.द.वि. थाना सिद्धार्थनगर ।
5. मु.अ.सं. 150/2018 धारा 379 भा.द.वि. थाना सिद्धार्थनगर ।
6. मु.अ.सं. 198/2018 धारा 379 भा.द.वि. थाना सिद्धार्थनगर ।
7. मु.अ.सं. 220/2018 धारा 379 भा.द.वि. थाना सिद्धार्थनगर ।
8. मु.अ.सं. 246/2018 धारा 380/411/457 भा.द.वि. थाना सिद्धार्थनगर ।
9. मु.अ.सं. 274/2018 धारा 41/411/413/419/420/467/468/471 भा.द.वि. थाना सिद्धार्थनगर ।
10. मु.अ.सं. 278/2018 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना सिद्धार्थनगर ।
11. मु.अ.सं. 358/2018 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना सिद्धार्थनगर ।
12. मु.अ.सं. 461/2016 धारा 8/20 स्वापक औषधि मनःप्रभावी अधि. थाना सिद्धार्थनगर ।
13. मु.अ.सं. 462/2016 धारा 3/25 आयुध अधि. थाना सिद्धार्थनगर ।

#### रिंकू उर्फ छोटले का आपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.सं. 20/2022 धारा 380/411/457 भा.द.वि. थाना देबरुआ ।
2. मु.अ.सं. 21/2022 धारा 380/411/457 भा.द.वि. थाना देबरुआ ।
3. मु.अ.सं. 26/2022 धारा 380/411/457 भा.द.वि. थाना शोहरतगढ ।
4. मु.अ.सं. 05/2019 धारा 379/411/419/420/467/468/471 भा.द.वि. थाना सिद्धार्थनगर ।
5. मु.अ.सं. 06/2019 धारा 380/41/411/413/457 भा.द.वि. थाना सिद्धार्थनगर ।
6. मु.अ.सं. 08/2019 धारा 3/25 आयुध अधि. थाना सिद्धार्थनगर ।

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 बलजीत कुमार राव थाना उसका बाजार मय टीम जनपद सि.नगर ।
2. उ0नि0 जीवन त्रिपाठी प्रभारी एस0ओ0जी मय टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
3. उ0नि0 नन्दा प्रसाद थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।
4. हे0का0 रमेश यादव एसओजी टीम सिद्धार्थनगर ।
5. हे0का0 राजीव शुक्ला एसओजी टीम सिद्धार्थनगर ।

6. हे0का0 अवनीश सिंह एसओजी टीम सिद्धार्थनगर ।



**प्रेसनोट/सराहनीय कार्य दिनांक 03.02.2023 जनपद सिद्धार्थनगर**

**थाना त्रिलोकपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का किया गया सफल अनावरण, 02 अभियुक्त सहित 01 बाल अपचारी गिरफ्तार, चोरी के ₹ 2272/- नकद बरामद ।**

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा “अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी” के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व राणा महेंद्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के पर्यवेक्षण में व सूर्य प्रकाश सिंह थानाध्यक्ष थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में थाना क्षेत्र त्रिलोकपुर के कस्बा बिस्कोहर मे हार्डवेयर की दुकान से हुई चोरी की घटना जिसके सम्बन्ध में थाना त्रिलोकपुर में मु0अ0सं0 18/2023 धारा 457/380 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत है, के सफल अनावरण हेतु उ0नि0 राकेश त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया था। गठित टीम द्वारा आज दिनांक 03-02-2023 को प्राप्त सूचना के आधार पर दलपतपुर पुलिया थाना त्रिलोकपुर के पास से समय करीब 10:00 बजे 02 नफर अभियुक्त व 01 नफर बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया। जिनके पास से मुकदमा उपरोक्त में चोरी हुआ ₹ 2272/- नकद बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**बरामद माल का विवरण –**

1- ₹ 2272 नकद

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-**

1. साजिद पुत्र शब्बीर निवासी बिस्कोहर थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर
2. अकबाल पुत्र स्व0 मो उमर निवासी बिस्कोहर थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर
3. 01 नफर बाल अपचारी

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

1. उ0नि0 राकेश त्रिपाठी चौकी प्रभारी बिस्कोहर थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।
2. का0 आशीष मौर्य थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।
3. का0 अजय यादव थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

**प्रेस नोट दिनांक 03-02-2023 जनपद सिद्धार्थनगर**

**पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस लाइन्स में सामाहिक परेड की सलामी ली गयी एवं परेड का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये।**

आज दिनांक 03-02-2023 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर अमित कुमार आनंद द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउण्ड मे सामाहिक शुक्रवार परेड की सलामी ली गयी तथा परेड का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के पश्चात कर्मियों को शारीरिक रूप से फिट रहने हेतु दौड़ लगवाई गई व परेड के दौरान अनुशासन व एकरूपता के लिए टोलीवार ड्रिल कराई गई। पुलिस लाइन की बेहतर साफ-सफाई हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया तत्पश्चात महोदय द्वारा पुलिस लाइन के आदेश कक्ष मे सभी गार्ड रजिस्ट्रों को चेक करते हुए गार्ड की सुरक्षा के संबंध मे सभी गार्ड कमांडरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों पर शुक्रवार की परेड करायी गयी। शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए समस्त पुलिस कर्मियों से दौड़ लगवायी गयी एवं अनुशासन व एकरूपता बनाए रखने के लिए ड्रिल भी करवाया गया। परेड के दौरान क्षेत्राधिकारी लाइन अखिलेश वर्मा, प्रभारी प्रतिसार निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

### प्रेस नोट दिनांक 03-02-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

**जनपद के शोहरतगढ़ सर्किल क्षेत्र के समस्त थानों/क्षेत्रों में RAF व पुलिस बल की संयुक्त टीम द्वारा पैदल गश्त किया गया।**

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशानुसार जयराम, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के नेतृत्व में आज दिनांक 03-02-2023 को जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ सर्किल के समस्त थाना (शोहरतगढ़, चिल्हियां, ढेबरुआ व कठेला समयमाता) क्षेत्रान्तर्गत आरएएफ (91 बटालियन बिजनौर) और स्थानीय पुलिस के जवानों के साथ पैदल मार्च किया गया।

### प्रेस नोट थाना त्रिलोकपुर दिनांक 03.02.2023

थाना त्रिलोकपुर पुलिस द्वारा **02** वारण्टी अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में राणा महेंद्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण में सूर्य प्रकाश सिंह थानाध्यक्ष थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में थाना त्रिलोकपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक **03.02.2023** को वाद संख्या **916/06** धारा **332,323,504, 506** भादवि0 तथा वाद संख्या **17/2016** धारा **354A** भादवि0 एव **7/8** पाक्सो एक्ट से संबंधित **02** वारण्टी अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

**गिरफ्तार वारण्टी का विवरण:-**

- 01.** रामफेर उर्फ बृजराज मौर्य पुत्र रामवृक्ष निवासी खुखुडी थाना त्रिलोकपुर सिद्धार्थनगर
- 02.** सत्यप्रकाश पुत्र रामेश्वर प्रसाद निवासी कठौतियां गोकुल थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

- 01.** उ0नि0 अजय सिंह थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थ नगर
- 02.** उ0नि0 राम प्रताप सिंह थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थ नगर
- 03.** उ0नि0 शिवदास गौतम थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर
- 04.** का0 कुनाल सिंह थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थ नगर

## प्रेस नोट:दिनांक 03.02.2023 यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर

आज दिनांक 03.02.2023 को सड़क सुरक्षा माह के तीसरे दिवस पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर अमित कुमार आनन्द के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी यातायात देवी गुलाम के कुशल निर्देशन में प्रभारी यातायात अमरेश कुमार मय यातायात पुलिस टीम द्वारा पी0ए0 सिस्टम,पोस्टर पम्पलेट आदि के माध्यम से साड़ी तिराहा, पेट्रोल पम्प तिराहा, सिद्धार्थ तिराहा आदि स्थानों पर यातायात जागरूकता से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार किया गया एवम प्रभारी यातायात अमरेश कुमार मय यातायात टीम द्वारा अभियान चलाकर वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाया गया, जिससे कोहरे में वाहनों की दृश्यता बढ़ सके एवम सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सके, तथा वाहन चेकिंग के दौरान यातायात नियम का पालन न करने वाले 22 वाहनों से 24500/-रु0 शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट बेल्ट धारण करने के पश्चात् ही वाहन चलाने और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी लायी जा सके।

## प्रेस-नोट दिनांक 03.02.2023 जनपद सिद्धार्थनगर

जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ आदि स्थानों पर नव युवकों, महिलाओं और लड़कियों को महिला सुरक्षा व मिशन शक्ति के संबंध में जानकारी दी गई तथा मनचलों एवं शोहदों पर कार्यवाही हेतु चेकिंग की गयी।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में मनचलों एवं रोमियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 03.02.2023 को शक्ति मोबाइल/प्रभारी एण्टी रोमियो महिला उ0नि0 पूनम मौर्या द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत थाना सिद्धार्थ नगर के सिद्धार्थ नगर महोत्सव स्थल, तेतरी बाजार, सिद्धार्थ तिराहा, रेलवे स्टेशन, सिंहेश्वरी मन्दिर, स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थानाक्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों, रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की गयी।

### **एण्टी रोमियो टीम का विवरण-**

- 01- महिला उ0नि0 पूनम मौर्या प्रभारी एण्टी रोमियो जनपद सिद्धार्थनगर।
- 02- आरक्षी राकेश यादव एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर।
- 03- महिला आरक्षी रीनू एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर।

## प्रेस नोट दिनांक 03.02.2022

जनपद के शोहरतगढ़ व इटवा सर्किल क्षेत्र के थानोंक्षेत्रों में RAF व पुलिस बल की संयुक्त टीम द्वारा पैदल गश्त किया गया ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशानुसार क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ जयराम व क्षेत्राधिकारी इटवा हरीश चन्द्र के नेतृत्व में आज दिनांक 03-02-2023 को जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ सर्किल के समस्त थाना व इटवा सर्किल (शोहरतगढ़, चिल्हिया, ढ़ेबरुआ कठेला समयमाता, इटवा व गोलहौरा) क्षेत्रान्तर्गत आरएएफ (91 बटालियन बिजनौर) और स्थानीय पुलिस के जवानों के साथ पैदल मार्च किया गया ।